

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

飲食真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

燈明真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

闍伽真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

如來頂相真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

如來甲真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

如來舌真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

如來圓光真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

無礙力真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

彌勒菩薩真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

虛空藏真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

除蓋障真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

觀自在真言

唵 誦 字 字 殊 妙 淨 觀 音 聖 母 尊 耶 耶 耶 唵

成菩提真言

ॐ व (व सं ५)

涅槃真言

(ॐ वं ल सं ५)

降三世真言

ॐ मः म म व व रु लं र लं रु (व रु य सं ५)

不動尊真言

ॐ मः म म व व रु लं सं ५

無動尊真言

ॐ व ल व सं ५

除蓋障真言

ॐ वं श्री व र ल (व रु म् नी ५)

除蓋障真言

ॐ मः म म व व रु लं सं ५

觀自在真言

ॐ व ल (के म म र मः ५)

金剛手真言

व रु लं (व रु लं वः ५)

文殊師利真言

ॐ रु श्री व रु लं सं ५

虛空眼真言

ॐ व व ल व व सं ५

法界真言

ॐ व व रु सं ५

大勤勇真言

मं न वीः वं ५

水自在真言

नृषं मृगं ५

多羅尊真言

नरं वीः वं ५

毘俱胝真言

शुभं शुभं ५

得大勢至真言

मं मं मं मं मं ५

白處尊真言

पं पं पं पं पं ५

何耶揭(口票)嚩真言

कं कं कं कं कं ५

耶輸陀羅真言

यं यं यं यं यं ५

寶手真言

मं मं मं मं मं ५

光網真言

नं नं नं नं नं ५

釋迦牟尼真言

नं नं नं नं नं ५

三佛頂真言

हूं हूं मं हूं हूं हूं उष्ठी पश्यं ५

白傘蓋佛頂真言

हं (मं नं पश्यं ५

勝佛頂真言

ॐ ह्रीं श्यां ह्रीं ५५

最勝佛頂真言

ॐ श्री श्री विद्या ह्रीं ५५

光聚佛頂真言

ॐ श्री श्री ह्रीं ५५

除障佛頂真言

ॐ वि के र ल पं श ह्रीं ५५

世明妃真言

ॐ हं पं हं हं वि ह्रीं ह्रीं ५५

無能勝真言

ॐ श्री परा श्री ५५

地神真言

ॐ धृ धी धी ५५

計設尼真言

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ५५

烏婆計設尼真言

ॐ ह्रीं उ प क ह्रीं ५५

質多羅童子真言

ॐ ह्रीं वि ह्रीं ५५

財惠童子真言

ॐ ह्रीं व सु म ह्रीं ५५

除疑怪真言

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ५५

施一切眾生無畏真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

除一切惡趣真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

哀愍惠真言

(ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं)

大慈生真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

大悲纏真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

除一切熱惱真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

不可思議真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

地藏旗真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

寶處真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

寶手真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

持地真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

寶印手真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

堅固意真言

ॐ मंत्रं सर्वं मन्त्रं कथं कथं

虛空無垢真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

虛空惠真言

(ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

清淨惠真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

行慧真言

(ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

安惠真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

諸奉教者真言

(ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

諸菩薩所說真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

淨居真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

淨居天真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

羅剎婆真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

諸荼吉尼真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

藥叉女真言

ॐ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

諸毘舍遮真言

(प॒रि॑(प॒रि॑(प॒रि॑(प॒रि॑(प॒रि॑(प॒रि॑)

諸部多羅真言

ॐ॒॑रुं॑रुं॒॑ॐ॒मं॑सं॒गकुं॑ न॒वं॑

諸阿修羅真言

रं॑रं॑ं॒वुं॑मं॒सुमं॑सप॒

諸摩睺囉伽真言

रं॑रं॑ं॒(रं॑रं॑ं॒

摩睺囉伽真言

मं॑रं॑रं॑

諸緊那羅真言

रु॑रुमं॒(रु॑रुमं॒(रु॑रुमं॒

諸人真言

ॐ॑रुं॒परं॑मं॒मयं॑म॒सु॒नं॑ म॒व॒पु॒त्रं॒॒॑॑॑॑

無所不至真言

व॒मः॑स॒र्वे॑ न॒र्य॒गर॑रु॒(व॒सु॒मु॒द्र॒रु॒स॒र्वे॑ न॒र्य॒म॒स॒स॒सः॑

虛空藏明妃真言

व॒मः॑स॒र्वे॑ न॒र्य॒गर॑रु॒(व॒सु॒मु॒द्र॒रु॒स॒र्वे॑ न॒र्य॒उ॒रु॒ग॒म॒नी॑ मं॒गा॒ग॒न॒कं॑सु॒नं॑

滿足一切金剛字句真言

व॒मः॑स॒म॒व॒व॒सु॒नं॑(व॒सु॒नं॑

無礙力明妃真言

न॒रु॒(ग॒ग॒म॒स॒स॒स॒र्वे॑ न॒र्य॒गर॑रु॒(व॒सु॒मु॒द्र॒रु॒स॒र्वे॑ न॒र्य॒म॒स॒स॒सः॑

救世者真言

व॒मः॑स॒म॒व॒व॒सु॒नं॑

無能害力明妃真言

व॒मः॑स॒र्वे॑ न॒र्य॒गर॑रु॒(व॒सु॒मु॒द्र॒रु॒स॒र्वे॑ न॒र्य॒म॒स॒स॒सः॑

置字句

१३:३३ ३३ ३३ ३३ ३३